

KRA & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS

(An ISO 9001:2008 Certified and Peer Reviewed Firm Serving Since 1979)

ANNUAL AUDIT REPORT

April 2018 to March 2019

NAME OF AGENCY: NAGARPALIKA PARISHAD, AMANGANJ (M.P.)

ADDRESS: NAGARPALIKA PARISHAD, AMANGANJ (M.P.)

NAME OF SCHEME: ALL SCHEMES

FINANCIAL YEAR: 2018-19

ASSESSMENT YEAR: 2019-20

KOTWALI ROAD, NEAR TEEN BATTI, SAGAR, MP, 470002

Email ID: Website:



KRA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS

(ICAI Reg. No. 020266N)

Office: Kotwali Road, Near Teen Bati, Madhya Pradesh, Sagar 470002

Mo. +91 - 777 107 7566

Email: kra.bhopal@gmail.com

AUDITOR'S REPORT

We have audited the attached Receipt and Payment of **NAGAR PALIKA PARISHAD, AMANGANJ, PANNA (M.P.)** as at **31st March, 2019** for the year ended on that date annexed hereto. These financial statements are the responsibility of the **NAGAR PALIKA PARISHAD, AMANGANJ, PANNA (M.P.)**. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted the above audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

In our opinion and to best of our information and according to the explanation given to us, the said accounts, subject to the notes gives the true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India.

In the case of Receipt and Payment Account of the receipt and Payment of during the year ended on 31 March 2019.

Date: 30th September, 2019

Place: Sagar (M.P.)

For & on behalf of:

KRA & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS



CA. Rajat Goyal

Partner

M.No. 503150

नगर पालिका परिषद, अमानगंज जिला पञ्जा
प्राप्ति और भुगतान पत्रक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक

RECEIPTS	AMOUNT	AMOUNT	PAYMENTS	AMOUNT	AMOUNT
<u>TO Opening Exp</u>			<u>By Establishment Exp</u>		
बैंक	24,393,459.14	24,393,459.14	वेतन व भत्ते	15,008,895.00	
नगद			अवकाश नगदीकरण	93,587.00	
<u>Tax Revenues</u>			ठेकेदारी मजदूरी	5,092,822.00	
संपत्ति कर	261,315.00		वेतन से काटीगयी वृत्तिकर	259,900.00	
समेकित कर	401,816.00		वेतन से कटौती आयकर	392,367.00	20,847,571.00
शिक्षा उपकार	6,081.00				
विकास उपकार	77,183.00		<u>Administrative Exp</u>		
बाजार मेला बैठकी	55,990.00		जी.पी.एफ.	634,300.00	
बाजार बैठकी	291,890.00		विद्युत बिल	2,220,551.00	
आय राशि	34,090.00		फोटोकॉपी, स्टेशनरी	718,978.00	
दखल फीस	377,800.00		विज्ञापन व्यय	698,722.00	
सूचना का अधिकार	20.00	1,506,185.00	बैंक प्रभार	1,007.80	
<u>Rental Income from Municipal</u>			कार्यालयीन व्यय	191,678.00	
<u>Properties</u>					
शॉप प्रीमियम	391,000.00		टेलीफोन बिल	36,474.00	
टावर लाइन	12,750.00		वाहन किराया	777,787.00	
काम्पलेक्स 2 किश्त	5,000.00		प्याऊ निर्माण	128,170.00	
दुकान किराया	1,735,568.00		डीजल व्यय	1,805,809.00	
मृत पशु उठाना एवं हड्डी चमड़ा ठेका	6,400.00		भाड़ा	26,602.00	
हैण्ड पम्पो के पुराने पाइप बिक्री	4,200.00	2,154,918.00	कम्प्यूटर सामग्री	121,269.00	
			अंत्येष्टि सहायता राशि	649,000.00	8,010,347.80
<u>Fees & User Charges</u>			<u>Operation & Maintenance</u>		
विधुत अनापत्ति	70.00		न्यायलीन व्यय	256,002.00	
प्रमाण पत्र	1,749.00		वाहन मरम्मत	274,792.00	
जलकर बकाया	156,180.00		मरम्मत एवं रखरखाव	6,479,367.00	
टेन्डर फार्म	617,839.00		किराया	53,000.00	




<u>Loans, Advances & Deposits</u>					
अमानत राशि	37,000.00				
अज्ञात राशि प्राप्त	5,536,871.00				
अधिक अन्तर राशि	10,200.00				
दुकान हस्तान्तरण	5,000.00				
		5,589,071.00			
Total -	79,124,557.14	79,124,557.14	Total -	79,124,557.14	79,124,557.14

We have checked the above "Receipt & Payment A/c" for the year ending on 31st March 2019 & found the same is Correct.

For : K.R.A. & Co.

Chartered Accountants



CA Rajat Goyal

PLACE : SAGAR

DATE : 28/09/2019

नगर परिषद् अमानगंज जिला पन्ना
बैंक खातों में शेष

S. No.	Bank Name	A/c No.	As on 31.03.2019
1	State Bank of India	7411	5245284.00
2	HDFC Bank	9162	1054626.00
3	Axis Bank	5229	5397654.00
4	State Bank of India	1063	8737.00
5	State Bank of India	1074	168317.00
6	State Bank of India	1109	12587.00
7	Central Bank of India	1827	206211.00
8	Kshetriya Gramin Bank	9306	24473.00
9	Kshetriya Gramin Bank	3690	230817.00
10	Kshetriya Gramin Bank	0563	36756.00
11	Post Office	1630	5000.00
Total			12390462.00



Nagar Parishad Amanganj

<u>Audit of Revenue</u>					Observations in Brief
राजस्व कर वसूली					
	Year 2017-18	Year 2018-19	% Growth		
संपत्ति कर	527024.00	261315.00	-50.42%	परिषद् द्वारा वर्ष 2018-19 में Rs. 265709/- कम वसूले गए हैं	
समेकित कर	380943.00	401816.00	5.48%	परिषद् द्वारा वर्ष 2018-19 में Rs. 20873/- ज़्यादा वसूले गए हैं	
विकास उपकर	91878.00	77183.00	-15.99%	परिषद् द्वारा वर्ष 2018-19 में Rs. 14695/- कम वसूले गए हैं	
शिक्षा उपकर	7421.00	6081.00	-18.06%	परिषद् द्वारा वर्ष 2018-19 में Rs. 1340/- कम वसूले गए हैं	
कुल योग	1007266.00	746395.00	-25.90%		

आय का अंकेक्षण

- (i) हमारे द्वारा विभिन्न स्त्रोत्रों से आय का अंकेक्षण किया गया है
- (ii) हमारे द्वारा परिषद् की कर से आय को उनकी रशियों से मिलान किया गया है
- (iii) आम तौर पर परिषद् द्वारा दैनिक कर वसूली अगले कार्य दिवस पर बैंक में जमा की गयी
- (iv) परिषद् द्वारा समाधी जमा पर ब्याज उसके Maturity पर कैश बुक में लिया जाता है
- (v) जाँच के दौरान ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जहाँ परिषद् द्वारा बाजार प्रचलित दर से कम में FDR बनवायी गयी है



व्यय अंकेक्षण

- 1 हमारे द्वारा सभी मदों के खर्चों की जांच की गयी है ।
- 2 परिषद रोकड़ बही की प्रविष्टि संबंधित वाउचर से की गयी है ।
- 3 हमारे द्वारा रोकड़ बही के दैनिक /मासिक शेष का मिलान किया गया और वह अनेक जगहों पर गलती पाई गयी जो सही कराया गया है ।
- 4 हमारे द्वारा जिस मद हेतु राशि आई थी और उसके विरुद्ध खर्च की जांच की गयी, और ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जिसे प्राप्त राशि से अधिक व्यय किया गया हो ।
- 5 परिषद ने व्यय हेतु दिशा/निर्देशों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है।
- 6 हमारे द्वारा व्ययों की वित्तीय औचित्य की भी जांच की गयी ।
- 7 परिषद द्वारा अचल संपत्ति का विवरण संधारित नहीं किया गया है ।



बुक संधारण अंकेक्षण

- 1 हमारे द्वारा रोकड़ बही के साथ स्टोर की भी जांच की गई है
- 2 परिषद अकाउंटिंग के एकल प्रविष्टि कैश सिस्टम का पालन कर रहा है, अतः आय - व्यय एवं बैलेन्स शीट बनाना संभव नहीं है।
- 3 हमारे द्वारा अग्रिम पंजी की जांच की गई, दिये गए अग्रिम की समय पर वसूली/समयोजन किया गया है।
- 4 परिषद द्वारा बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं किया गया है।
- 5 परिषद द्वारा अनुदान पंजी संधारित नहीं की गयी है।
- 6 स्थायी संपत्ति पंजी संधारित नहीं की गयी है, एवं जांच के लिए कोई अन्य रिकार्ड नहीं बनाया गया है जिससे जांचा जा सके की परिषद के पास कुल कितनी अचल संपत्ति है।
- 7 आय - व्यय पंजी संधारित नहीं की जा रही है, किन्तु कम्प्यूटर पर रिकार्ड रखा गया है।

अस्थायी सामाग्री पंजी

- भौतिक सत्यापन रिपोर्ट 31.03.2019 की इस तिथि में नहीं बनाई गयी है।



सावधि जमा अंकेक्षण

1. हमार द्वारा पारषद का सभा एफडीआर का जाच का गइ ह, आर सभा एफडीआर समय पर नवानीकरण (Auto Renewed) का गइ ह ।
2. जांच के दौरान ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जहा परिषद द्वारा बाजार प्रचलित दर से काम में FDR बनवाई गई हो ।
3. परिषद द्वारा एफडीआर पर ब्याज उसके परिपक्वता पर रोकड बही में दर्ज किया जाता है ।



अनुदान एवं कर्ज अंकेक्षण

- 1 परिषद द्वारा निम्न मदों (राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से प्राप्त) में राशि प्राप्त हुई हैं ।
विवरण निम्नानुसार

	<u>वर्ष में प्राप्त</u>
मूलभूत	4173000.00
चुंगी क्षतिपूर्ति	16805877.00
राज्य वित्त	2689000.00
14 वा आयोग	8206000.00
सड़क मरम्मत	840000.00
निर्यात कर	72000.00
यात्री कर	72000.00
मुद्रांक	56000.00
निकाय निधि से जमा	367417.00

उक्त मदों में प्राप्त राशि का इस्तेमाल जिस उद्देश हेतु राशि आई थी उसी उद्देश हेतु किया जा रहा है । जांच के दौरान ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जहां प्राप्त रही से अधिक या जिस उद्देश के लिए आया हो उसके अलावा भुगतान किया गया हो ।

- 2 हमारे द्वारा परिषद को दिये गए ऋण की जांच की गई एवं उसका विवरण निम्न अनुसार हैं ।
परिषद को लोन बुनियादी ढांचे के लिए दिया गया है, जिसमें सीसी रोड, नाली निर्माण इत्यादि निर्माण कराया गया है ।
- 3 हमारे जांच के दौरान ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जहां चुंगी गत आय को राजस्व व्यय हेतु व्यय किया गया हो ।

